

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2015/पौष 18, 1936

No. 49]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2015/PAUSHA 18, 1936

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2015

का.आ. 101(अ).—जबकि मैसर्स आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, आवेदक जिसका पंजीकृत कार्यालय ब्लाक सी-2, द मीरा कार्पोरेट सुट्स, 1 एवं 2 ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110065 में हैं, ने निम्नलिखित पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत अनुमोदन के लिए आवेदन किया है :-

- (i) आरएपीपी- सुजलपुर 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन "राजस्थान में आरएपीपी इकाई-7 एवं 8 का पार्ट एसोसिएटेड ट्रांसमिशन सिस्टम।"

2. और जबकि भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 16.05.2013 के पत्र संख्या 11/17/2013-पीजी (आरटीसीएल-पीएफसी) के अंतर्गत आरएपीपी-सुजलपुर 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन, राजस्थान में आरएपीपी इकाई-7 एवं 8 की पार्ट एसोसिएटेड ट्रांसमिशन सिस्टम के निर्माण के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

3. और जबकि आवेदक ने अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है जो कार्यों के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित टेलीग्राफ या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्यों हेतु टेलीग्राफ लाइनों बिछाने और खम्भे लगाने के संबंध में भारतीय दूरसंचार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत दूरसंचार प्राधिकरण के पास होती हैं। स्कीम के अंतर्गत शामिल पारेषण लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, आसपास से और बीच में से होती हुई गुजरेंगी:-

आरएपीपी-सुजलपुर 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन

क्रम सं.	गांवों का नाम	तहसील	जिला	राज्य
1.	खेरली, थामिआओ, सेमालिया, रेनखेड़ा, एकलिंगपुरा, वैजापुर, किशोरपुरा, मैनपुर, विजयपुर, खातिखेरा, गिलोटा, शोगढ़, गोपालपुरा, मोहाना, खातिखेड़ा, जिलौटा, मान्याखेड़ी, हलसेरा, रूपपुरा, शोगरथ, ढोलई, रायपुर, भीमपुर	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	राजस्थान
2.	गोविंदपुरा, कालियाखेड़ी, भावापुरा, नयोनट खेरी, राजपुरा, शामिया, पिपलिया, गोपालपुरा, नाहराबाद, गरनाबाद, अरोली, ताल, खोड़, गणेशपुर, श्री छत्तरपुर	पाचपहाड़	झालावाड़	राजस्थान
3.	रोपपुरा, बोरखेड़ी, गोपालपुरा, नाहरबाड़, रूपपुरा, बोरखेरी खुर्द, कानवारा, गुनाड़ी, गुराडिया, सामरिया, कनवारी, डाबला, गडारा, गाडरी, सामया, गुराडिया, गादिया, झिरान्या, राजपुरा खुर्द, सोयला, आजमपुर, पिपलिया, शामियान, गुराडिया, कुटकी, डोबरी, डोबरा, मून्डला, कुटकी, दुबाड़ी, देवरखेड़ी, रूपाखेरी, सुवास, सुनवास, सेमाली, कालीतलाई, चानवाली, दोबाडा, मुन्डला, रूपखेड़ी, सुवास, काली तलाई, पेटभर, दीवाल खेड़ा, काली तलाई, बारखेड़ी जाजिद, चुनाली, गरवारा, मायाखेड़ी, राजपुरा, गुन्डी	पिडावा	झालावाड़	राजस्थान
4.	अलोद, मोतीपुरा खुर्द, रीछ, कानी, सलेरा खुर्द, बोरिना, गुलाबपुरा, अमलवाड़ खेड़ा, राजपुरा खुर्द, हात्या खेड़ी, काल्या खेड़ी, राय खेड़ी, रायखेरा, मदनपुरा, जोधपुरा, तमोलिया, ढाक्या, तमोलिया, छतरपुरा, रीछारिया, खैराबाद, मंडाली, रावली, भाओपुरा, न्यामतखेड़ी, देवली, हमलखेड़ी, तैल्या खेड़ी, जगपुरा, बोरिना, सोहनपुरा, मोतिपुरा कला, डोडखेड़ी, दूदकाली, रघुनाथपुरा, डारिया, भीमपुरा, रीन्धारिया, खेराबाद, समखेरा, गोरधनपुरा, देवीपुरा, धरनाबाद, भीमपुर, सारंग खेड़ी, धारिया, बंदा, मन्डा, बूदान खेड़ी	रामगंजमंडी	कोटा	राजस्थान
5.	भागोरी, वामनिया खेड़ी, दोव, मल्हारगढ़, लोटिया, अरनिया, शंकरनगर, लच्छीवाड़ा, शेरपुरा, डिंगालपुरा, मऊ, बारुखेड़ी, असारेटापवार, मछालपुर, माहेली, अमलावे, पिपलाया, राजाहेड़ी, खारपा, तापरियाहेड़ी, भंडावाड़, वातावड़ा परागना, अशारेटा, अकन्याखेड़ी, लक्खाखेड़ी, करोंदली, बुदानपुर लटवा, टिकोड, शहवाजपुर, खाकरी, खेजदिया, झाड़मऊ, मोहन, लसुदिया पडगना, खाटाखेड़ी, कांदेली, जाबारदी, जेथली, भागोरा, झारुगढ़, किशनगढ़, पोलखेड़ा, खेड़ी भवानीपुरा, देवनगर, कहारखेड़ी, नागखेड़ी, गोरधानपुरा, ललियाखेड़ी, रूपाहेड़ा, केसरपुरा, शकरपुर, सेमली	जीरापुर	राजगढ़	मध्यप्रदेश
6.	मऊ, गदाना, मगन्याखेड़ी, असरेटा पवार, करोदी, रामपुरा अमलार, निनोर मंगरोला, श्यामपुर चितोनी, चितोडा, पिपलोद, लाखाखेड़ी,	पचोर	राजगढ़	मध्यप्रदेश

	बुदानपुर, इटावा, तीकोड, जबरादी			
7.	खजूरिया गोकुल, खजूरिया हरी, मोंदा लोडी, भुमका अरनया, डेडला, दयाखेडी, भ्याना, लीवा चौहान, हाराना, डाराना, कलानली, अरनया, लोटिया, घट्टिया, इल्लीवाडा, शंकरनगर, शेरपुरा, डींगलपुर, अकन्या खेडी, भेसवा, देवीपुरा, देवलीमान खालसा, देवलीमान जागरी, पधाना, पटडिया डाबी, सदानखेडी, स्वारसिया	सारंगपुर	राजगढ़	मध्यप्रदेश
8.	फिकौदा, श्यामपुर, नयापुरमदरोला, समालपुर, फिटौन	शुजालपुर	शाजापुर	मध्यप्रदेश
9.	किशनपुरा, बरई, श्रीपटपुरा, डोंगरगांवा, ताल-का-पट्टी, देवरी, रावली, बोरई, गुराडिया, सोयत, सकटपुरा, भारुगढ़, अमलावे, कहारखेडानाग खेडी, तापरिया खेडी, गोपालपुरा, खेरिया, सोयत, भागोरा, कनवारा खेडी, शहवाजपुरा, खांकरी, खेजदिया झाड़मऊ, रामनगर, मोहन, लसुडियाखेरी, देवलीमांजागीर, दुलया खेडी, सोयतखुर्द, सोयत कलां, कल्यानपुरा, पिपलयाखेडा, सकारपुरा, मुंदलालोधा, भूमका, सवरस्या, देदला, बियाना, कलाली सालयाखेडी	सुसनेर	शाजापुर	मध्यप्रदेश

4. इसलिए, अब सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत आवेदक को वे सभी शक्तियां प्रदान करता है जो विद्युत के अन्तरराज्यीय पारेषण हेतु उपरोक्त उल्लिखित अन्तरराज्यीयरेषण लाइनें बिछाने के लिए निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित टेलीग्राफ या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्यों हेतु टेलीग्राफ लाइनें बिछाने और खम्भे लगाने के संबंध में भारतीय दूरसंचार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत दूरसंचार प्राधिकरण के पास होती हैं, अर्थात्—

- (i) अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों के निर्माण से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को पारेषण, प्रचालन एवं अनुरक्षण, खुली पहुँच आदि के संबंध में उपयुक्त आयोग के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक को आरएपीपी-सुजलपुर 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन, "राजस्थान में आरएपीपी इकाई-7 एवं 8 के पार्ट एसोसिएटिड ट्रांसमिशन सिस्टम" के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- (v) कार्यो का ब्यौरा 12 जुलाई,—18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
- (vi) आवेदक संबंधित राज्यों के मुख्य वैद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (vii) यह अनुमोदन विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का आवेदक द्वारा अनुपालना किए जाने के अधीन है।

फा.सं. 11/71/2014-पीजी)

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER**ORDER**

New Delhi, the 7th January, 2015

S.O. 101(E).—Whereas M/s RAPP Transmission Company Limited, the applicant with its registered office at Block C-2, The Mira Corporate Suites, 1&2 Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi- 110065, has applied for approval under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for construction of (the following Transmission lines:

- (i) RAPP - Shujalpur 400 kV D/c Transmission line, “ Part Associated Transmission System of RAPP Unit - 7 & 8 in Rajasthan”.

2. And whereas Government of India, Ministry of Power vide letter No. 11/17/2013-PG(RTCL-PFC) dated 16.05.2013 had granted prior approval under sub-section (i) of Section 68 of the Electricity Act, 2003 in respect of construction of RAPP - Shujalpur 400 kV D/c Transmission line, “ Part Associated Transmission System of RAPP Unit - 7 & 8 in Rajasthan”.

3. And whereas the applicant has now requested to confer upon him all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003 which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained for the works. The transmission line covered under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:-

Rapp - Shujalpur 400 Kv D/C Transmission Line:

Sl. No	Name of Villages	Tehsil	District	State
1.	Kherli, Thamiao, Semaliya, Renkheda, Eklingpura, Vaijapur, Kishorpura, Menpur, Vijapur, Khati Khera, Gilota, Shogarh, Gopalpura, Mohana, Khatikheda, Gilota, Manya Khedi, Halsera, Rooppura, Shograth, Dholai, Raipur, Bheempur	Rawat Bhata	Chittorgarh	Rajasthan
2.	Govindpura, Kaliyakhedi, Bhaawapura, Nayonat Kheri, Rajpura, Shamiya, Pipliya, Gopalpura, Nahrabad, Garnabad, Arolly, Taal, Khod, Ganeshpura, Shri Chhatarpur	Pachpahad	Jhalawar	Rajasthan
3.	Roppura, Borkhedi, Gopalpura, Naharaawad, Rooppura, Borkheri Khurd, Kanwara, Gunadi, Guradiya, Samriya, Kanwari, Dabla, Gadara, Gadari, Samya, Guradiya, Gadiya, Jhiranya, Rajpura Khurd, Soyla, Azampur, Peepliya, Shamiyan, Guradia, Kutki, Dobri, Dobra, Moondla, Kutki, Dobadi, Devarkheri, Rupakheri, Suvass, Sunwas, Semali, Kalitalai, Chanvali, Dobada, Mundla, Roopkhedi, Suvas, Kali Talai, Petbhar, Deewal Khera, Kali Talai, Barkhedi Jajid, Chunali, Garwara, Mayakhedi, Rajpura, Gundi	Pidawa	Jhalawar	Rajasthan
4.	Alod, Motipura Khurd, Reechh, Kani, Salera Khurd, Borina, Gulabpura, Amalwad Khera, Rajpura Khurd, Hatya Khedi, Kalya Khedi, Raikhedi, Raikhera, Madanpura, Jodhpura, Tamoliya, Dhakya, Tamoliya, Chhatrapura, Reechhariya, Khairabad, Mandali, Rawali,	Ramganj Mandi	Kota	Rajasthan

	Bhaopura, Nyamat Khedi, Devli, Hemal Khedi, Telya Khedi, Jagpura, Vorina, Sohanpura, Motipura Kalan, Dodkhedi, Dudkali, Raghunathpura, Dariya, Bheempura, Reenchhariya, Kherabad, Samkhera, Gordhan Pura, Devipura, Dharnawad, Bhimpura, Sarang Khedi, Dhariya, Banda, Manda, Boodan Khedi			
5.	Bhagori, Bamanya Khedi, Dob, Malhargarh, Lotia, Arania, Shankar Nagar, Lchiwada, Sherpura, Dingalpur, Mau, Barukhedi, Asaretapawar, Machalpur, Mohli, Amlave, Pipalya, Rajahedi, Kharpa, Tapariya Hedi, Bhandavad, Vatabada Paragna, Ashareta, Aknyakhedi, Lakhakhedi, Karondli, Budanpur, Ltwa, Tikod, Shahwazpur, Khakri, Khejdiya, Jhadmau, Mohan, Lasudiya Padgna, Khatakhedi, Kandeli, Jabardi, Jethli, Bhagora, Jharugarh, Kishangad, Polkheda, Khedi, Bhawanipura, Deonagar, Kaharkhedi, Nag Khedi, Gordhanpura, Lalia Khedi, Rupaheda, Kesarpura, Shakarpur, Semli	Jirapur	Rajgarh	Madhya Pradesh
6.	Mau, Gadana, Magnya Khedi, Asreta Pawar, Karondi, Rampura, Amlar, Ninor, Mangrola, Shyampurchitouni, Chitoda, Piplod, Lakhakedi, Budanpur, Itawa, Teekod, Jabradi	Pachor	Rajgarh	Madhya Pradesh
7.	Khajuriya Gokul, Khajuriya Hari, Monda Lodi, Bhumka, Aranya, Dedla, Daya Khedi, Bhyana, Liva Chauhan, Harana, Darana, Kalanli, Aranya, Lotia, Ghattia, Ichiwada, Shankar Nagar, Sherpura, Dingalpur, Akanya Khedi, Bhesva, Devipura, Devlimaan Khalsa, Devlimaan Jagir, Padhana, Patdiya Dabi, Sadan Khedi, Swarsiya	Sarangpur	Rajgarh	Madhya Pradesh
8.	Phicauda, Shyampur, Naya Pur Madrola, Samalpur, Phitaun	Shujalpur	Shajapur	Madhya Pradesh
9.	Kishanpura, Barai, Shripatpura, Dongargaon, Tall Ka Patti, Devri, Rawli, Borai, Guradiya Soyat, Sakatpura, Bharugarh, Amlabey, Kaharkheda, Nagkhedi, Tapria Khedi, Gopalpura, Kheriya Soyat, Bhagora, Kanwara Khedi, Shahwajpura, Khankri, Khejdia, Jhadmau, Ramnagar, Mohan, Lasudiya Kheri, Deolimanjagir, Dulya Khedi, Soyat Khurd, Soyat Kalan, Kalyanpura, Pipalya Kheda, Sakarpura, Mundla Lodha, Bhumka, Savarsya, Dedla, Biana, Kalali, Salya Khedi	Susner	Shajapur	Madhya Pradesh

4. Now, therefore, after careful consideration, Government of India, Ministry of Power, confers, under section 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on the applicant which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained subject to

following terms and conditions for installing the above mentioned line for inter-state transmission of electricity, namely:-

- (i) the approval is granted for 25 years;
- (ii) the Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) the Applicant shall have to follow regulations /codes of the appropriate commission regarding transmission, O & M, open access etc;
- (iv) the Applicant shall have the responsibility of construction of RAPP - Shujalpur 400 kV D/c Transmission line, “ Part Associated Transmission System of RAPP Unit - 7 & 8 in Rajasthan”.
- (v) The details of the works are published in the Gazette of India of July 12 – July 18, 2014.
- (vi) the Applicant shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective States;
- (vii) the approval is subject to compliance by the Applicant of the requirement of the provisions of The Electricity Act, 2003 and the rules made there under.

[F. No. 11/71/2014-PG]

JYOTI ARORA, Jt. Secy.